



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 पौष 1930 (श०)
(सं० पटना 590) पटना, सोमवार 29 दिसम्बर 2008

मानव संसाधन विकास विभाग

अधिसूचनाएं

21 अक्टूबर 2008

सं० 3/आ.-2-73/2008-988—विभागीय अधिसूचना सं० 574 दिनांक 02-7-08 एवं शुद्धि-पत्र संख्या-987, दिनांक 21-10-08 जिसके द्वारा श्री उमा शंकर राम, प्राचार्य, राजकीय बालक उच्च विद्यालय शास्त्रीनगर, पटना को मध्यमा परीक्षा वर्ष-2007 के मुल्यांकन में अनियमितता हेतु निगरानी (अन्वेषण ब्यूरो) विभाग द्वारा दिनांक 9-6-08 को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेजे जाने के कारण दिनांक 09-6-08 के प्रभाव से निलम्बित किया गया था, को जेल से जमानत पर रिहा होकर उनके द्वारा दिनांक 26-8-08 को विभाग में दिए गए योगदान के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(3) (1) के अन्तर्गत दिनांक 26-8-08 के प्रभाव से निलम्बन से मुक्त करते हुए इनका योगदान स्वीकृत किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

रण विजय प्रसाद,

निदेशक (प्र०)-सह-संयुक्त सचिव।

21 अक्टूबर 2008

सं० 3/आ.-2-73/2008-989—विभागीय अधिसूचना सं० 988 दिनांक: 21-10-08 श्री उमा शंकर राम, प्राचार्य, राजकीय बालक उच्च विद्यालय, शास्त्रीनगर, पटना को दिनांक 26-8-08 के प्रभाव से निलम्बन मुक्ति के पश्चात् समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री राम के विरुद्ध मध्यमा परीक्षा वर्ष-2007 में अनियमितता संबंधित आरोप

प्रथम दृष्टया प्रमाणित है एवं निगरानी थाना काण्ड सं०-033/2008 में दर्ज मुकदमा के अनुसंधान के उपरान्त इन्हें दोषी पाया गया है तथा मामला न्यायालय में लम्बित है । इसके अतिरिक्त इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही चलाने हेतु आरोप पत्र गठित कर बचाव का लिखित अभिकथन इनसे माँगा गया है ।

2. अतः श्री राम को सी.सी.ए. रूल्स, 2005 के नियम 9 (1) (क) एवं 9 (1) (ग) के अन्तर्गत आदेश निर्गत की तिथि से अगले आदेश तक निलम्बित किया जाता है ।
3. निलम्बन अवधि में इनका मुख्यालय निदेशक (प्र०) सह-संयुक्त सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग का कार्यालय निर्धारित किया जाता है ।
4. निलम्बन अवधि में सी० सी० ए० रूल्स, 2005 के नियम- 10 (1) के अनुसार श्री राम को केवल जीवन निर्वाह एवं अनुमान्य भत्ता देय होगा ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

रण विजय प्रसाद,

निदेशक (प्र०)-सह-संयुक्त सचिव ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 590-571+00-डी०टी०पी०।